

जनपद बाराबंकी

दिनांक 08.08.2022

सर्विलांस टीम व थाना असन्द्रा की संयुक्त टीम द्वारा एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की एक जोड़ी पायल, नकद रुपये व एक अदद तमंचा मय जिन्दा कारतूस तथा एक मोटर साइकिल बरामद-

जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 08.08.2022 को सर्विलांस टीम व थाना असन्द्रा की संयुक्त टीम द्वारा मु0अ0सं0 304/2022 धारा 380/411 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त नरेन्द्र कुमार यादव पुत्र जगदीश निवासी खरसतिया थाना हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी को पजावा मोड़ से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से एक जोड़ी पायल सफेद धातु, 1700/-रुपये नकद व एक अदद अवैध तमंचा मय एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर तथा एक अदद मोटर साइकिल हीरो स्प्लेण्डर प्लस यूपी 62 केटी 3190 बरामद कर थाना असन्द्रा पर मु0अ0सं0 334/2022 धारा 3/25 आयुध अधिनियम व मु0अ0सं0 335/2022 धारा 411/419/420/467/468/471 भादवि पंजीकृत किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

नरेन्द्र कुमार यादव पुत्र जगदीश निवासी खरसतिया थाना हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी

बरामदगी-

1. एक जोड़ी पायल सफेद धातु, 1700/-रुपये नकद (सम्बन्धित मु0अ0सं0 304/2022 धारा 380/411 भादवि)
2. एक अदद अवैध तमंचा मय एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर
3. एक अदद मोटर साइकिल हीरो स्प्लेण्डर प्लस यूपी 62 केटी 3190

पुलिस टीम-

सर्विलांस टीम-

1. उ0नि0 श्री अकिंत त्रिपाठी प्रभारी सर्विलांस टीम जनपद बाराबंकी।
2. हे0का0 चन्द्र प्रकाश, हे0का0 जितेंद्र वर्मा, हे0का0 मजहर अहमद
3. का0 जुबेर खान, का0 अनुज वर्मा, का0 सुधाकर सिंह भदौरिया
4. का0 दिव्यांश यादव, का0 शैलेंद्र कुमार, का0 जरनैल सिंह

थाना असन्द्रा-

1. प्रभारी निरीक्षक असन्द्रा श्री नीतीश कुमार श्रीवास्तव जनपद बाराबंकी ।
2. उ0नि0 श्री राजकिशोर दुबे थाना असन्द्रा जनपद बाराबंकी ।
3. उ0नि0 श्री मनोज कुमार थाना असन्द्रा जनपद बाराबंकी ।
4. का0 विनय कुमार, का0 दीपक कुमार थाना असन्द्रा जनपद बाराबंकी।